



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 206 राँची, सोमवार,

11 मार्च, 2019 (ई०)

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

संकल्प

10 मार्च, 2019

संख्या-1079 -- भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण तथा निदेशों के अनुसार निर्वाचन कार्यों को अधिक पारदर्शी एवं सशक्त बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य, यथा-प्रभावी एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया लागू करने, अभ्यर्थियों के चुनाव खर्च पर व्यापक नियंत्रण रखने, त्रुटि रहित फोटो मतदाता सूची तैयार करने, SVEEP अन्तर्गत प्रचार-प्रसार के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने, IT का व्यापक प्रयोग आदि को मूर्त रूप प्रदान करने एवं समुचित पर्यवेक्षण आदि कार्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड का कार्यालय में पूर्व से स्वीकृत बल के माध्यम से उक्त सभी कार्यों को करा पाने में कठिनाई महसूस की जा रही थी।

2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के समस्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ विमर्शोपरान्त अपने पत्रांक-154/State Structure/2013&EPS दिनांक 4 फरवरी, 2014 द्वारा सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम संख्या में पदों के सृजन हेतु दिशा-निर्देश दिया गया है।

3. उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के कार्यालय में पदाधिकारी एवं कर्मचारी स्तर के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभागीय संलेख जापांक-785 दिनांक-26.02.2019 के क्रम में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-01.03.2019 के मद सं०-7 में प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में कुल 12 (बारह) पदों को स्वीकृत करने का निर्णय निम्न प्रकार लिया है :-

क्र.	पदनाम	सृजित होने वाले पदों की संख्या	वेतनमान	अभियुक्ति
1	Additional Chief Electoral Officer	1	PB-IV 37400-67000 GP 8700/-	भा०प्र०से०
2	Joint Chief Electoral Officer	1	PB-IV 37400-67000 GP 8700/-	झा०प्र०से० (संयुक्त सचिव कोटि)
3	Deputy Chief Electoral Officer	1	PB-III 15600-39100 GP 7600/-	झा०प्र०से० (A.D.M. कोटि)
4	Assistant Chief Electoral Officer	1	PB-III 15600-39100 GP 6600/-	झा०प्र०से० (अनुमंडल पदाधिकारी कोटि)
5	Deputy Election Officer	1	PB-III 15600-39100 GP 6600/-	झा०प्र०से० (अनुमंडल पदाधिकारी कोटि)
6	Sub Election Officer	1	PB-III 15600-39100 GP 5400/-	झा०प्र०से० (मूल कोटि उप समाहर्ता)
7	Personal Assistant	1	PB-II 9300-34800 GP 4600/-	आशु लिपिकीय सेवा संवर्ग
8	Stenographer	4	PB-I 5200-20200 GP 2400/-	आशु लिपिकीय सेवा संवर्ग
9	Statistical Officer	1	PB-II 9300-34800 GP 4200/-	सांख्यिकी सेवा

4. उक्त सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-660/वि० दिनांक-28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान / ग्रेड पे एवं 7वां वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प सं०-217/वि० दिनांक-18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगी।

5. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासनिक एवं आशुलिपिकीय सेवा के पदों पर नियुक्ति / पदस्थापन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा तथा सांख्यिकीय सेवा के पद पर योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्ड के अनुसार की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव ।
